

द्वारका इंटरनेशनल स्कूल
नमूना प्रश्न पत्र सत्र : 2017-18
कक्षा-सातवीं, विषय - हिंदी

समय : 3 घंटे

पूर्णांक : 80

- निर्देश : 1° इस प्रश्नपत्र में चार खंड है ।
2° प्रत्येक खंड के उत्तर देना अनिवार्य है ।
3° यथासंभव प्रश्नों के उत्तर क्रम से दें ।

खंड-क

1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 5
क्रोध मनुष्य की एक साधारण प्रवृत्ति है और हम सभी में यह मौजूद रहती है । सीमा के बाहर क्रोध एक दुर्गुण का रूप ले लेता है । क्रोध की अवस्था में मनुष्य के रक्त की गति ही नहीं बढ़ती है बल्कि व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास को भी क्रोध प्रभावित करता है । अतः क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है । क्रोध पर विजय पाना बहुत कठिन नहीं है । इसके लिए धैर्य एवं अनुशासन की ज़रूरत होती है । प्रयास करने से क्रोध को एक रचनात्मक दिशा दी जा सकती है ।
क) प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए ।
ख) सीमा के बाहर क्रोध क्या रूप होता है ?
ग) क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है ?
घ) 'क्रोध' का एक पर्यायवाची लिखिए ।
ङ) क्रोध करने से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

2. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए - 5
कुछ काम करो, कुछ काम करो,
जग में रहकर अपना नाम करो ।
यह जन्म हुआ किस अर्थ तुम्हारा,
समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो ।
कुछ तो उपयोग करो तन का,
नर हो, न निराश करो मन को ।
क) प्रस्तुत पंक्तियों में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है ? ।
ख) कवि किसे व्यर्थ न जाने को कह रहा है ?
ग) कवि किसका उपयोग करने की सलाह दे रहा है ?
घ) जग में रहकर किस प्रकार अपना नाम किया जा सकता है?
ङ) प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए ।

खंड-ख

3. निम्नलिखित क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए - 2
क) सिलना ख) हँसना
4. निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर उचित विराम चिह्न लगाइए - 2
क) नौकर ने सफ़ाई की कपड़े धोए और खाना बनाया
ख) आपके साथ कौन कौन आया है
5. निम्नलिखित वाक्य पढ़कर रेखांकित शब्दों के अर्थ बताइए - 2

- क) पिताजी ने रोहन का कर्ण जोर से खींचा ।
 ख) बच्चा माँ के अंक में आते ही चुप हो गया ।
6. निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाविशेषण शब्दों के भेद बताइए - 2
 क) नेहा ने रिया को जोर से आवाज़ लगाई ।
 ख) उस तरफ़ अँधेरा ही अँधेरा है ।
7. कोष्ठक से उचित शब्द का चुनाव करते हुए वाक्य पूर्ण कीजिए - 2
 क) गंगा को नदी कहा जाता है । (पवन/ पावन)
 ख) सूरज पूर्व से निकलता है । (दिशा/ दशा)
8. वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए - 2
 क) जन्म से अंधा ख) जो सगा भाई हो
9. निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंधबोधक शब्द भरिए - 2
 क) सुमित, आम के वृक्ष देखो ।
 ख) परीक्षा देने..... मैं मुंबई घूमने जाऊँगा ।
10. निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :- 2
 क) हमने -----बोया है वैसा काटेंगे ।
 ख) -----बड़ों का कहना मानना चाहिए ।
11. निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से पहले विशेषण शब्द लिखिए :- 2
 क) -----साड़ी ख) ----- मौसम
12. निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए :- 2
 क) पंडित जी पूजा कर रहे हैं । (भूतकाल)
 ख) मैं दिल्ली गया था । (भविष्य काल)

खंड-ग

13. निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए :- 5
 उमड़-घुमड़ चहुँदिस से आया, दामिन दमकै झर लावन की ॥
 नन्हीं-नन्हीं बूँदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की ।
 मीरा के प्रभु गिरधर नागर ! आनंद-मंगल गावन की ॥
- क) प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं व इसके रचयिता कौन हैं ?
 ख) मीरा को किसके आने का आभास हुआ ?
 ग) सावन के महीने में कैसी पवन चलती है ?
 घ) मीरा अपने गिरधर नागर के लिए कैसे गीत गाना चाहती है ?
14. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए:- 5
 क) "इस बार ये पैसे न लूँगा ।" किसने किससे कहा ?
 ख) 'बदरिया' शब्द का अर्थ लिखिए ।
 ग) धनराज को पहली हॉकी स्टिक किसने दी ?
 घ) नीलकंठ ने किसकी जान बचाई ?
 ड) मछली भी जल का मोह छोड़ देती है । (सही / गलत)
15. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:- (1x5)
 क) एटिला (कुत्ते) को खरीदे जाने का क्या कारण था ?
 ख) वामा ने लेखक की जान कैसे बचाई ?
 ग) अंधी पैसे क्यों जमा कर रही थी ?
 घ) पुजारी ने संता को शाप क्यों दिया ?

ड) दाढ़ीवाला आदमी कौन था ?

16 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :-

(2x5=10)

क) नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को साँप से किस प्रकार बचाया ?

ख) आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई ?

ग) धनराज अपनी तुनुकमिज़ाजी का क्या कारण बताते हैं ?

घ) कवि रहीम ने क्लार के बादलों की क्या विशेषता बताई है ?

ड) मिठाईवाला बच्चों की मनपसंद चीज़ें क्यों बेचता था ?

खंड-घ

17. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए -

5

क) कक्षा में आया मेरा नया साथी

कब आया.....उसका स्वभाव और आदतें.....पढाई एवं खेल में अच्छा.....सभी का प्रिय ।

ख) होली का वह दिन

दिन याद करना.....कब आया.....किस प्रकार मनाया.....आनंद एवं उत्साह का अनुभव मेलजोल का त्योहार ।

18. व्यायाम का महत्त्व बताते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए ।

5

अथवा

पिकनिक पर जाने की अनुमति माँगते हुए प्रधानाचार्या को प्रार्थना पत्र लिखिए ।

19. 'सोनाटा घड़ी' पर एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए ।

5

20. बस में बैठे दो यात्रियों के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए ।

5

21 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन लगभग 70-80 शब्दों में कीजिए -

5

